**FINANCIAL EXPRESS** 

### PUBLIC NOTICE Before the Central Government

Registrar of Companies, Kanpur n the matter of sub-section (3) of Section 13 o Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule

17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) n the matter of INFO PRO SERVICES LLP

(LLPIN: AAQ-1296) having its registered office at C4, SECTOR-2, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH-201301 Petitioner/Applicant

Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Kanpur under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Uttar Pradesh" to the state of

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Kanpur, within 21(twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

> INFO PRO SERVICES LLP (Madan Singh)

For and on behalf of

Place: Uttar Pradesh Designated Partner DIN: 08509891 Date: 29.08.2020

> PUBLIC NOTICE Before the Central Government

Registrar of Companies, Kanpur In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3)

n the matter of AKP INFO SOLUTIONS LLP (LLPIN: AAP-8211) having its registered office at C4, SECTOR-2, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH-201301

Petitioner/Applicant Notice is hereby given to the General Public that

the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Kanpur under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Uttar Pradesh" to the state of

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Kanpur, within 21(twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above. For and on behalf of

AKP INFO SOLUTIONS LLF (Manoj Kumar) Designated Partner Place: Uttar Pradesh Date: 29.08.2020 DIN: 08502038

**ALLIANCE INTEGRATED** METALIKS LIMITED

CIN: L65993DL1989PLC035409 Regd. Off.: D-15 Pamposh Enclave. Greater Kailash-1, New Delhi - 110048 Phone: +91-11-45210051 E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com Website: www.aiml.in POSTPONEMENT OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing) Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that due to unavoidable circumstances the meeting of Board of Directors of the Company which was re-scheduled to be held on Friday, August 28, 2020 i.e. today, is now postponed and further re-scheduled to be held on Friday, September 04, 2020 inter alia, to consider, approve and take on record the Standalone Audited Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31, 2020.

The said Notice may be accessed on the Company's website at https://www.aiml.in/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/.

> For Alliance Integrated Metaliks Limited

Daljit Singh Chahal Place: New Delhi Date: 28.08.2020 Whole Time Director

CLASSIC GLOBAL FINANCE AND CAPITAL LTD

Regd. Office: Office No. 8 IInd Floor, Sodhi Complex, Miller Ganj, Opp. Ramgarhia School Ludhiana – 141003 Email id: classicglobalfin@yahoo.com; Website: www.classicgfcl.com; CIN: L65921PB1995PLC015573

NOTICE Notice is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at Office No. 8, find Floor, Sodhi Complex, Miller

Ganj, Opp. Ramgarhia School, Ludhiana -141003 on Tuesday, the 22<sup>st</sup> Day of September. Opp. Ramgarhia School, Ludhiana 2020 at 09.00 A.M. to transact the Business, as set out in the Notice of AGM. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014,

Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system from a place other than the venue of the AGM ('remote e-voting'), provided by National Securities Depositary Limited (NSDL) and the business may be transacted through such voting. The said Notice along with the Proxy Form, Attendance Slip, and Annual Report inter-alia containing Director's Report, Auditor's Report and Auditer Financial Statement has been dispatched to all Members at their registered address or email ids on 27th August, 2020 and the Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depositary Limited (NSDL) at https:// evoting.nsdl.com

The remote e-voting period commences on 19th September, 2020 (9.00 A.M) and ends on 21th September, 2020 (5.00 P.M). During this period Members may cast their vote electronically. voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Remote e-voting shall not be allowed after the closing of business hour of Monday, 21st September, 2020 (5.00 P.M).

to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on 15th September, 2020 ("cut-off date"). Any person who is a Member of the Company as on the cutoff date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote evoting or voting at the AGM by poll. A person who has acquired shares and become

The voting rights of Members shall be in proportion

a member of the Company after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM by Ballot paper. Such person may obtain the login ID and password by sending request at evoting@nsdl.co.in However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and password can be used for casting vote. The facility for voting, on a Ballot paper shall be

have not already cast their vote by remote evoting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or write an e-mail to evoting@nsdl.co.in or contact on toll free number provided by NSDL 1800222990. In case of grievances/difficulties

made available at the AGM and Members who

Members may also contact M/s. MCS Share Transfer Agent Limited, the Registrar and Share Transfer Agents of the Company. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed om 17th September, 2020 to 20th September, 2020 (both dates inclusive) for the purpose of

Annual General Meeting of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020. Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy/through authorised

representative, provided that all proxies in the prescribed form/authorisation duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting are deposited at the Registered Office of the Company, not later than 48 hours before the

financiale

For CLASSIC GLOBAL FINANCE AND CAPITAL LIMITED Date: 28™ August, 2020 Place : Ludhiana VIRENDER RANA

1.1n

### M/s HIM STEELS PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) CIN U27205DL2011PTC218461

Liquidator Address: CA. Reshma Mittal, C-51, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-201002, Uttar Pradesh, India. Email: irp.himsteel@rrinsolvency.com E-Auction Sale Notice under IBC 2016

Notice is hereby given to the public in general under the insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations there under, that the following Assets and properties of M/s. HIM STEEL PRIVATE LIMITED (In Liquidation) forming part of liquidation estate are for sale as a going concern by the Liquidator. Assets will be sold by E-auction through the service provider M/s Augeo Asset Management Company (123done.in).

Date and Time of Auction 09.09.2020 from 3.00 p.m. to 5.00 p.m. (with unlimited extension of 5 min) Last Date for Submission of EMD | Before 5:00 PM of 07.09.2020. On or before 06.09.2020 (from 9.00 A.M. Inspection Date & Time to 7.00 P.M) with prior intimation to the liquidator, Contact Person (Mr. Deepak Mittal:+91-9810371373)

Website for detailed E-auction process document: https://eauction.123done.in Bid Earnest Manner Reserve Details of Assets Money Incremental Sale Deposit (INR) (INR) Value (INR) Rs. Rs. Sale of Corporate Debtor as going As a Rs. going 18,67,00,000/-93,35,000/-5,00,000 concern along with all its assets Concern (Eighteen Ninety three (Five Lakhs including Land & Building situated at lakhs and Crores and Only) Patch no. 1, Phase 2, Gowalthai, Industrial thirty five Sixty Seven Area, Distt Bilaspur, Himachal Pradesh; thousand

Lakhs only) Land Area is 46,968 Sq Mt.; Build up only) area of property is 15092 Sq.Mt.; Plant & Machinery: Induction Furnace 7200 kw with Megatherm Panel, Emco make transformer double secondary 8.4 MVA, 02 crucible of 18 MT Capacity; Ladle, Tundish, Slag box; Reheating furnace, Roughing Mill, Intermediate Mill stand, Continuous Finishing Mill, cooling Bed, HT Transformers 20/25MVA, EOT Cranes Double girder having capacity 5MT/10MT/15MT/ 40mt, Weigh bridge etc.

Terms and Condition of the E-auction are as under

1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" as such sale is without any kind of warranties and indemnities through approved service provider M/s Augeo Asset Management Company-(www.123done.in).

2. Bids shall be submitted to Liquidator (online or hard copy) in the format prescribed. The bid form along with detailed terms & conditions of complete E-auction process can be downloaded from the website of https://e-auction.123done.in/. Reshma Mittal

Liquidator in the matter of Him Steel Private Limited IBBI Reg No.: IBBI/IPA-001 /IP-P00297/2017-18/10541 Address: RR Insolvency Professionals LLP Date: 28.08.2020 C-51, RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-201002 Place: Ghaziabad E mail id: irp.himsteel@rrinsolvency.com

# HIGH STREET FILATEX LTD

REGD OFFICE:B-17, IIND FLOOR, 22 GODAM INDUSTRIAL AREA, JAIPUR-302006, INDIA Tel No: 0141-2214074, 4025431 Web Site: www.highstreetfilatex.in | E-mail: highstreet.filatex@gmail.com

CIN: L18101RJ1994PLC008386

NOTICE OF 26TH ANNUAL GENERAL MEETING OF HIGH STREET FILATEX LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM") AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of High Street Filatex Limited will be held on Wednesday, the 30th Day of September, 2020 at 02:00 P.M. through video conferencing ("VC") or other audio visual means ("OAVM") in accordance with the Circular no. 14/2020 dated April 8, 2020 read with Circular no. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular no. 20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical presence of the members at a common venue. Members participating through VC/OVAM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

Electronic copies of the Notice of the 26th AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent to all the members on Friday, August 28, 2020 whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s). The requirements of sending physical copy of notice of AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular(s) and SEBI Circular as mentioned above.

In compliance with provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014(as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the members to enable them to cast their votes electronically from a place other than the venue of the AGM ('Remote E-voting') on all resolutions set forth in the Notice of 26th AGM, as well as e-voting on the date of the AGM. For this purpose, the Company has signed an agreement with the Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") for facilitating e-voting. In this regard, the Members are hereby further informed that:

- (a) The remote e-voting period shall start at 10:00 A.M. on Saturday, September 26, 2020 and end at 05:00 P.M. on Tuesday, September 29, 2020. The remote e-voting shall not be allowed after 05.00 P.M. on Tuesday, September 29, 2020. The same will be disabled by CDSL
- (b) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2020, shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e-voting at the AGM. The detailed procedure/ instructions for remote e-voting and e-voting are contained in the Notice of the AGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, September 23, 2020 may obtain the login ID and password by sending a request at help desk evoting@cdsindia.com. However, if person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote.
- Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC/OVAM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through

- VC/OVAM but shall not be entitled to cast their vote again. The notice of the AGM and annual report are available on the website of the Company i.e. www.highstreetfilatex.in and website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. The notice of the AGM is also
- available on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") i.e. www.evotingindia.com. Any query/grievances pertaining to voting by electronic means, the members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evotingindia.com under help section or contact to Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543), Manager, A Wing, 25th floor Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds NM Joshi Marg, Lower parel (E) Mumbai-400013, email: helpdesk.evoting@cdslindia.com; Phone: 18002005533. Members may also write to company secretary at the company email address highstreet.filatex@gmail.com.

By the order of the Board For High Street Filatex Limited

Vibhor Kumawat Company Secretary and Compliance officer ACS-55710



# PNC INFRATECH LIM

Registered Office: NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-5, New Delhi-110017 CIN: L45201DL1999PLC195937, Email: complianceofficer@pncinfratech.com, Website: www.pncinfratech.com

Standalone

**EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020** 

Date: August 28, 2020

Place: Jaipur

Rs. in Lakhs (except EPS)

Consolidated

S. No.	Particulars	Quarter Ended (30.06.2020) un-audited	Quarter Ended (30.06.2019) un-audited	Year Ended (31.03.2020) audited	Quarter Ended (30.06.2020) un-audited	Quarter Ended (30.06.2019) un-audited	Year Ended (31.03.2020) audited
1	Total Income from Operations	92,437.87	1,33,527.22	4,96,641.43	1,12,309.24	1,59,933.39	5,77,820.28
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8,659.25	14,467.76	61,202.29	12,588.77	23,508.36	71,278.05
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,659.25	14,467.76	61,202.29	12,588.77	23,508.36	71,278.05
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	6,011.94	10,014.90	46,030.16	9,174.63	17,850.94	54,988.48
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	6,062.57	9,991.21	46,232.65	9,239.07	17,827.14	55,246.23
6	Equity Share Capital	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	2,49,528.84	-	-	2,50,295.20
	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) -  1. Basic: 2. Diluted:	2.34	3.90	17.94	3.58	6.96	21.43

Place: Agra

Date: August 27, 2020

1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on Stock Exchanges website (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and Company's website (www.pncinfratech.com).

2) The above standalone/consolidated results, reviewd by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at its meeting held on August 27, 2020.

For PNC INFRATECH LTD Sd/

Chakresh Kumar Jain **Managing Director & CFO** (DIN: 00086768)

E) Dt. Of Demand Notice u/s 13(2) of SARFESI ACT 2002

# **SRG HOUSING FINANCE LIMITED**

321, S.M. Lodha Complex, Near Shastri Circle, Udaipur (Rai)-313001 CIN: L65922RJ1999PLC01544( website: www.srghousing.com, email: info@srghousing.com, ph. no: 0294-2561882, 2412609

### INFORMATION REGARDING 21ST ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that 21st Annual General Meeting of the members of the Company

will be held on Thursday, 24th September, 2020 at 12:15 P.M. through video conferencing ('VC') / other audio visual means ('OAVM') in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and SEBI circular dated May 12, 2020 to transect the business as set out in the Notice of the AGM. The Notice of AGM along with the Annual Report 2019-20 are being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositories. Members may note that the aforesaid documents will also be made available on the Company's website www.srghousing.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDI www.evoting.nsdl.com and no physical copies will be dispatched to the members. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and shall be

counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of Companies Act, 2013. The Instructions for attending the AGM through VC/ DAVM and detailed manner of electronic voting is being provided in the Notice convening the AGM. The Company is providing remote e-voting facility and facility of e-voting system during the AGM to all the eligible members as per the applicable provision of the Act on all business items as set out in the Notice of AGM. Those Members, who have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting

will be able to vote at the AGM through e-voting. The login credentials to cast vote through electronic voting shall be made available to the shareholders after updating their email Register of Members and Share Transfer books of the Company shall remain closed from

Friday 18th September, 2020 till Thursday 24th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of 21st Annual General Meeting of the company. In Case the Members who have not registered their email addresses with the

Company/Depository, please contact your depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the agency for providing electronic voting facility and Video Conferencing Facility to

conduct the AGM through VC/OVAM. In case of any questions in connection with the e-voting or attending the meeting through VC/OVAM, Members may contact on toll free no.: 1800-222-990 or contact Sarita Mote, Assistant Manager at 91 22 24994890; or send e-mail to SaritaM@nsdl.co.in or

evoting@nsdl.co.in or Ms. Sunaina Nagar, Company Secretary of the Company, Tel: 0294

Date: 28.08.2020 Place: Udaipur

For SRG Housing Finance Limited Sunaina Nagar (Company Secretary) M.No: A40754

Divisional Office, No.6, (KVB) Karur Vysya Bank 3rd Floor, Opp: Metro Pillar No: 80, Smart way to bank

2561882 and email: info@srghousing.com

Pusa Road, Karol Bagh, New Delhi - 110 005 Ph: 011-28758374/2875375/76/77 Email: Delhido@kvbmail.com bhaskaranps@kvbmail.com SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and

Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, The Karur Vysya Bank Ltd, (physical possession of 3rd floor has been taken and remaining 3 floors symbolic possession / constructive possession has been taken) by the Authorised Officer of The Karur Vysya Bank Ltd., Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", "without recourse", and "Whatever there is" on 23.10.2020, for recovery of Rs. 2,89,94,358.90 (Rupees Two Crore Eighty Nine Lakhs Ninety Four Thousands Three Hundred Fifty Eight and Paisa Ninety Only) due to the Karur Vysya Bank Ltd, Secured Creditor from (1) M/s Fortune Retail, per Prop. Himashu Girdhar, Mother Care Store, B-3, Model Town-2, Ground Floor, New Delhi-110009 Also May be at: Mother Care Store, G-41, Abdul Fazal Enclave II, Vishwasji Sadak, Shaheen Bagh, New Delhi-110025; (2) Mr. Himanshu Girdhar, S/o Mr. Gurucharan Dass Girdhar, 17/10, 1st Floor, Front Portion, Kalkaji, Delhi-110019 and (3) Mr. Rohit Arora, s/o Mr. Om Prakash, H.No. 3127, Gali No. 4, Old Dharm Pura, Gandhi Nagar, Delhi-110031. The reserve price will be Rs.22,00,000.00 (Rupees Twenty Two Lakhs only) per each item. The earnest money deposit will be Rs.2,20,000 (Rupees Two Lakhs Twenty Thousands only) per each item DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Item No: 1 - Ground Floor in a building constructed on Plot No: E-209, Khasra No: 207,

Indira Gali, Shahdara, Babarpur, Delhi - 110 032 along with available parking in stilt floor with an approximate plinth area of 79.432 sq. mtr and along with pro-rata UDS of Land underneath the building Item No: 2 - First Floor in a building constructed on Plot No: E-209, Khasra No: 207

Indira Gali, Shahdara, Babarpur, Delhi - 110 032 along with available parking in stilt

floor with an approximate plinth area of 79.432 sq. mtr and along with pro-rata UDS of

Land underneath the building Item No: 3 - Second Floor in a building constructed on Plot No: E-209, Khasra No: 207, Indira Gali, Shahdara, Babarpur, Delhi - 110 032 along with available parking in stilt floor with an approximate plinth area of 79.432 sq. mtr and along with pro-rata UDS of

Item No: 4 - Third Floor in a building constructed on Plot No: E-209, Khasra No: 207 Indira Gali, Shahdara, Babarpur, Delhi – 110 032 along with available parking in stilt floor with an approximate plinth area of 79.432 sq. mtr and along with pro-rata UDS of Land underneath the building

Common boundaries of entire building North: Gali 15 ft wide South: Others property East : Others property West: Others property

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in our

A)Reserve Price (Rs. in Lacss)

Land underneath the building

Bank's/ Secured Creditor's website i.e www.kvb.co.in/Property Under Auction also at the web portal https://eauctions.samil.in of the service provider, M/s Shriram Automall India Statutory 30 days' Notice under Rule 8(6) of the SARFAESI Act, 2002

The borrower/s and guarantor/s are hereby notified to pay the dues as mentioned above along with up to date interest and ancillary expenses before the date of e-Auction, failing

which the Schedule property will be auctioned/sold and balance dues, if any, will be recovered with interest and cost. Date : 26.08.2020 Chief Manager & Authorized Officer

पंजाब नैशनल बेंक

Name of the Branch

punjab national bank ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

Description of the Immovable Properties

Address: Yamunapuram, Bulandshahr, U.P. - 203001 Mob: 9771414649, Phone: 05732-281724, e-mail: cobsrsamd@pnb.co.in; CS8212@pnb.co.in

**CIRCLE OFFICE: BULANDSHAHR** 

Place : Delhi

**E-AUCTION:** 29-09-2020

The Karur Vysya Bank Ltd.

DATE/ TIME

E-AUCTION SALE NOTICE TO GENERAL PUBLIC UNDER RULE 8 & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES 2002, PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby

given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties. SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

4.1	10.00	At					
M No.		Name of the Account Name & addresses of the Borrower	Mortgaged/owner's Name (mortgagers of property (ies))	F) Outstanding Amount as on	B)EMD (last date of deposit of EMD)	OF E-AUCTION	
		/Guarantors Account		G) Possession Date u/s 13(4) of SARFESI ACT 2002 H) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive	C)Bid Increase Amount		
1.		PNB- Khurja Main	Residential plot Situated at kasba bahar chungi khurja pargana & tehsil khurja, distt	E. 31.10.2018	A. Rs. 9.26 Lakhs	29-09-2020	
L		M/s GOLDEN CERAMICS INDUSTRIES	bulandshahr, measuring 160.83 sq Mtrs bounded as : East :Plot West : Khet	F. Rs. 12.25 Lakhs as on 01.10.2018	B. Rs. 92,600/-	( 11.00 AM to 4.00 PM)	
ST.		MURARI NAGAR, Khurja Bulandshahr 203131	Prem Chand , North : Property advocate jaheer	G. 23.07.2019	C. Rs. 10,000	(11.001.00.001.00)	
in ip n,			South: House Haji Sahid, property registered in the office of Sub- registrar Khurja in Bahi No. 1, Zild No. 7973, Page No. 129-158 at Sr No. 1794 on 04.02.2015  Owned by Smt. Faruki Begum w/o Mohd. Hanif	H. Symbolic possession			
S	2.	PNB-Khurja Main M/s JAIBA MUKHTAR 94, KOT-2KHURJA, KHURJA Bulandshahr 203131	EM of Single Storey residential house situated at Mohalla Kot, Backery wali gali Khurja, total area - 172.77 Sq. Mtrs, owned by Smt. Zeba Mukhtar  Boundaries:  East: Rasta Chowk, West: House Abdul Saleem  North: House Meer Beg South: Rasta gali 10ft wide Owned by Smt. Zeba Mukhtar	E. 10.07.2019	A. Rs. 21.77 Lakhs	29-09-2020	
е	1			F. Rs. 17.18 Lakhs as on 30.06.2019	B. Rs. 2,17,700/-	( 11.00 AM to 4.00 PM)	
is in				G. 11.09.2019	C. Rs. 10,000		
g a e le				H. Symbolic possession			
0		PNB- Khurja Main	Commercial Construction bearing registered sale deed jointly held in the name of	E. 30.07.2019	A. Rs. 27.65 Lakhs	29-09-2020	
1D 3-		M/s ALI HANDLOOM PROP SAKIR ALI SARAI MURTZA NAI BASTI	Sh. Hasim Ali and Smt. Sarwari Begum Total Area 218.50 Sq. Mtrs i.e. 261.23	F. Rs. 32.02 Lakhs as on 30.06.2019	B. Rs. 2,76,500/-	( 11.00 AM to 4.00 PM)	
ee by ut see ss)		Near GT Road Khurja Junction Bulandshahr 203131	Boundaries :- East: Gali 8Ft 9 inch wide West: Plot Hazi Abdul Rahim	G. 23.10.2019	C. Rs. 10,000	V ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
			North: Plot Sh. Basar & land of Hazi Abdul Rahim South: Plot Sh. Murtza Khan Owned by Sh. Hasim Ali and Smt. Sarwari Begum	H. Symbolic possession			
ct 4	4.	The state of the s	All Part and parcel of residential plot and building bearing No. 246, Measuring 305.60	E. 07.12.2019	A. Rs. 73.90 Lakhs	29-09-2020	
e e		SINGH	Sq.Mtrs situated at hari enclave colony Bulandshahr 203001, registered on 12.05.2006 with S.R. Office Bulandshahr in the book 1St volume 3254 at pages 125	F. Rs. 48.50 Lakhs as on 06.12.2019	<b>B.</b> Rs. 7,39,000/-	( 11.00 AM to 4.00 PM)	
t, e		246, HARI ENCLAVE COLONY Bulandshahr 203001	to 156 at sr no. 2676 Owned by Mr. Rajendra Singh s/o Mr. rich pal singh & Mrs. Nitu w/o Mr.Rajendra Singh Boundries: North: House of I.P.Singh, South: Road 30",	G. 26.02.2020	C. Rs. 10,000		
r. of e		The state of the s	East: Raasta 30", West: House of Shalendra Singh(Thekedar)  Owned by Mr. Rajendra Singh s/o Mr. rich pal singh & Mrs. Nitu w/o Mr.Rajendra	H. Symbolic possession			

The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions: The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS"

Singh

2. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website https://www.mstcecommerce.com on 29/09/2020 AT FROM: 11:00 AM to 04:00 PM.

 For detailed term and conditions of the sale, please refer www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app Date: 27.08.2020, Place: Bulandshahr

Punjab National Bank, Circle Office, Bulandshahr

Authorized Officer, Secured Creditor

New Delhi

अंसल प्रापटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्क्चर लिमिटेड सीआईएन : L45101DL1967PLC004759

पंजीकृत कार्यालय : 115, अंसल भवन, 16, कस्तुरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001 मोबाइल : +91-9871053419, दुरभाष : 91-11-23353550, 66302268-72 वेबसाइट : www.ansalapi.com

ई-मेल : shareholderservice@ansalapi.com

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सदस्यों (शेयरधारकों) की 53वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कांफ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 11.30 बजे प्रातः आयोजित की जायेगी। भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 20/2020, 17/2020 तथा 14/2020 क्रमशः दिनांक 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 8 अप्रैल, 2020 (सामृहिक रूप से ''एमसीए परिपत्र'' सन्दर्भित), कम्पनी अधिनियम, 2013

(''अधिनियम'') के प्रावधानों, यथा संशोधित सेमी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') के अनुसार कम्पनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जायेगी और वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट सहित 53वीं एजीएम आयोजित करने की सचना उन सदस्यों के पास केवल इलेक्टॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ansalapi.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेजों की वेबसाइटों अर्थात www.bseindia.com

तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। ये दस्तावेज लिंक इनटाइम इंडिया प्रहा.लि. ('एलआईआईपीएल') की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे कम्पनी के निदेशक मण्डल ने वित्त वर्ष 2019-20 हेतु कोई लाभांश नहीं स्वीकृत किया है।

भौतिक माध्यम में शेयर धारण करने वाले शेयरधारक तथा जिन्होंने कम्पनी के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकत/अपडेट नहीं कराये हैं वे इसे कम्पनी के पास फोलियो नम्बर का विवरण तथा पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति देकर (गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के मामले में, प्राधिकार पत्र/संकल्प अपेक्षित है) shareholderservice@ansalapi.com पर लिखित में अथवा लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के पास shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर निवेदन कर सकते हैं या शेयरधारक लिंक https://linkintime.co.in/emailreg

. डीमैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदार के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करायें अथवा वे अपना ई-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं।

कम्पनी के सदस्य जो भौतिक माध्यम में शेयर धारण करते हैं और जिन्होंने कम्पनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है तथा साथ ही वे सदस्य जिन्होंने डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता अद्यतनीकृत नहीं कराया है वे 53वीं एजीएम की सुचना में उल्लिखित नोट में निर्देशों का अनुपालन करके एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग/ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने हेतु लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड (एलआईआईपीएल की ईवोटिंग प्रणाली https:// instavote.linkintime.co.in पर लॉगिन करके) मतदान कर सकते हैं।

महाप्रबन्धक (कॉर्पोरेट मामले) तथा कम्पनी सचिव सदस्यता सं. : FCS 7135

ई-वोटिंग सूचना तथा बुक क्लोजर की सूचना एतद्वारा सचना दी जाती है किः

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 28 अगस्त, 2020

(अ) एजीएम आयोजित करने की सचना में निर्धारित प्रकार्य के लेन-देन के लिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कांफ्रेंस (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को 11.30 बजे पूर्वा. भा.मा.स. पर आयोजित की जायेगी। एजीएम की सुचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट एवं रिमोट ई-वोटिंग क विवरण उन सभी सदस्यों के पास इलेक्टॉनिक माध्यम से भेजा जायेगा जिनके ई-मेल आईर्ड कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सचनाओं तथा वार्षिक रिपोर्ट को ई-मेल करने की पूर्णता की तिथि 26 अगस्त, 2020 है। एजीएम की सुचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ace-cranes.com, तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथ www.nseindia.com पर उपलब्ध है। सदस्य https://www.evotingindia.com

शेयरहोल्डर/मेम्बर्स लॉगिन के तहत वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकेंगे। रिमोट ई-वोटिंग सुचना : कट-ऑफ तिथि अर्थात बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 तक भौतिक य अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली से उनके पोर्टल www.evotingindia.com के माध्यम से 26वीं एजीएम की सचना में निर्धारित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा इलेक्टॉनिक

1. 25वीं एजीएम की सचना में निर्धारित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान

2. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान रविवार, 20 सितम्बर, 2020 को 9,00 बजे प्रातः से प्रारम्भ

होगा और बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगा। 3. 26वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों या ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित

करने की कट-ऑफ तिथि बहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 है।

4. कोई व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और 26वीं एजीएम की सुचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितम्बर, 2020 को शेयर धारण करता है वह helpdesk.evotina@cdslindia.com, कम्पनी के आरटीए के पास cs@ace-cranes.com पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है हालाँकि, यदि सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल के साथ पहले ही पंजीकरण करा लिय

5. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा रीति के लिए सदस्य 26वीं एजीएम की सूचना में प्रदत्त रिमोट ई-वोटिंग के निर्देशों को देख सकते हैं अथवा ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग तथा एजीएम में शामिल होने से सम्बन्धित किसी पृछताछ या मृददों के मामले में सदस्य www.evotingindia.com पर उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (''एफएक्य'') तथा ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं याश्री नितिन कन्दर (022-23058738) अथवा श्री महबुब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) रं

सदस्य ध्यान दें कि :

सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा।

सदस्यों ने एजीएम से पर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया है वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

(द) जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितम्बर, 2010 को डिपॉजिटरी द्वार अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में अथवा सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वर्ह एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग अथवा ई-वोटिंग का उपयोग करने के पात्र होंगे।

लिए मैसर्स विशष्ठ एण्ड एसोसिएटस, कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियक्त

दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पर्न की शेयर अन्तरण पुस्तिका बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 से बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर 2020 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बन्द रहेंगी।

कृते एवं हिते एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

अनिल कुमार कम्पनी संचिव

# RattanIndia

### रतनइंडिया इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड

(CIN: L40101DL2010PLC210263)

पंजीकृत कार्यालय: एच. नं. 9, पहली मंजिल, गाँव हौज़ खास, नई दिल्ली -110016 फोन :011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindia.com/ril ई-मेल: ir@rattanindia.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि अन्य व्यवसायों के साथ-साथ जून 30, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए, रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, सितंम्बर 4, 2020 को आयोजित की जाएगी ।

यह सुचना कंपनी की वेबसाईट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है ।

कृते रतनइंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

आर. के. अग्रवाल स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव दिनांक: अगस्त 28, 2020

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड CIN: L25209RJ2009PLC030620

पंजीकृत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाईट : www.vinayakpolycon.com फोन : 0141-2377007, फैक्स : 0141-2378830

### वीडियों कान्फ्रेंस द्वारा अयोजित 11वीं वार्षिक साधारण सभा संबंधी सूचना जारी कोविद-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ( MCA ) ने अपने परिपन्न दिनांक 5 मई 2020 को, 8 अप्रैल 2020 के परिपन्नों और 13 अप्रैल 2020 के परिपन्नों एवं भारतीय प्रतिभृति

विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंस ( वीसी ) या अन्य ऑडियो-विज्अल मीन्स ( ओएबीएम ) के माध्यम से एजीएम को रखने की अनुमति दी गई। इन परिपत्रों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी ( सुचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ ) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की आगामी एजीएम रविवार, 27 सितंबर 2020 को प्रात: 10:30 बजे बीसी/ ओएबीएम द्वारा आयोजित की जाएगी।

पूर्वोंक्त परिपन्नों के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का नोटिस केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजा जाना है, जिनका ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी डिपॉजिटरी के पास पंजीकत है। कंपनी एजीएम के ई-वोटिंग और पूर्व सदस्यों के समान अपने सभी सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा भी प्रदान कर रही है। यदि आपकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत है, तो एजीएम की सुचना के साथ-साथ विल वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। यदि आपने अपनी ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत नहीं की है. तो कपया विलीय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आई डी को दर्ज करने के निर्देशों का पालन करें।

ई-मेल पते को पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के रजिस्टार और ट्रांसफर एजेन्ट्स, मास सर्विसेज लिमिटेड को info@masserv.com पर अनुरोध भेजें, जिसमें फालियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट ( आगे और पीछे ) की स्कैन कॉपी, पैन ( पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित की गई स्कैन कॉपी ), आधार ( आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित की गई स्कैन कॉपी ) उपलब्ध कराना होगा । यदि पहले से पंजीकत नहीं है तो कपया अपना बैंक विवरण को करते हुए | हमारे आरटीए ( यानी मास सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, नई दिल्ली-110020 ) को मल रदद चैक के साथ भेजे जिसमें फालियों नं, भी उल्लेखित हो । उपरोक्त को कृपया 03.09.2020 या उससे पहले ही अपडेट करें ।

कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ( डीपी ) को संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकत करें । कंपनी दारा घोषित लाभांश भगतान के लिए कपया डीपी केसाथ अपने विवरण को भी अपडेट करें। करते हुए | उपरोक्त को कृपया 03.09.2020 या उससे पहले ही अपडेट करें।

सदस्य एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। डिमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है, उन्हें रिमोट ई-वोटिंग का तरीका उन्हें एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जायेगा। उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाईट www.vinayakpolycon.com पर भी उपलब्ध होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई-बोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वह एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई-मेल पते कंपनी/ आरटीए/ डीपी के साथ पंजीकत नहीं हैं. वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशाों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल उत्पन कर सकते हैं । उसी लॉगिन के डेंशियल का उपयोग बीसी / ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी किया जा सकता है। विला वर्ष 2019-2020 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट

www.vinayakpolycon.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध होगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जायेगा।

वास्ते- विनायक पॉलीकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड

रिंग अग्रवाल ( कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी ) सदस्यता सं. : A39114

### जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड CIN:L65910DL1990PLC040705

पंजी. कार्यालय: 4 एमएमटीसी/एसटीसी मार्केट, गीतांजलि, नई दिल्ली-110017 कॉर्पोरेट कार्यालय: 315, तीसरा तल, स्क्वॉयर वन मॉल, साकेत, नई दिल्ली-110017 टेली. नं. 011-42181244/ ईमेल: genesis599@gmail.com वेबसाईटः www.genesisfinance.net

30वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सुचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') गुरुवार, 2 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. में 4 एमएमटीसी/एसटीसी मार्केट, गीतांजलि, नई दिल्ली-110017 में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें उक्त एजीएम की सचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित

30वें एजीएम की सुचना, एफवाई 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट, ई-वोटिंग के निर्देशों, प्रॉक्सी प्रपत्र तथा उपस्थिति पर्ची की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी गई हैं जिनके ईमेल आईडी कम्पनी के पास/डिपॉजिटरी के पास पंजीकत हैं तथा उसकी भौतिक प्रतियाँ उनके पंजीकत पते पर सदस्यों को स्वीकत प्रक्रिया में भेजी गई है। सूचना तथा एफवाई 2019-20 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.genesisfinance.net, स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.in तथा सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना के प्रेषण की पूर्णता तिथि 29 अगस्त, 2020 है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (''एलओडीआर विनियमन'') के विनियमन 42 के साथ पिठत कम्पनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तके शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 से गुरुवार, 24 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सिंहत) तक एजीएम के पुनः कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 यथा-संशोधित के नियम 20 तथा एलओडीआर विनियमन

के विनियमन 44 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनपालन में कम्पनी सीडीएसएल द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग

सेवाओं के माध्यम से इलेक्टॉनिक माध्यमों से 30 वें एजीएम में अपने सदस्यों को मताधिकार की सविधा उपलब्ध

करा रही है। सदस्य ध्यान रखें कि ई-वोटिंग रविवार, 20 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. (दोनों दिवस सहित) में बंद होगी। इलेक्टॉनिक मार्ध्यमों से अथव एजीएम में मतदान की पात्रता सुनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 है। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनते हैं तथा 18 सितम्बर, 2020 की कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करते हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किये हों. उनके लिये एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।पुनः सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बावजूद र्भ

एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन, सभा में फिर से मतदान की अनमति उन्हें नहीं दी जायेगी।

तोई के आहेश जेनेसिस फाइनांस कम्पनी लिमिटेड के लिये

स्थानः नई दिल्ली कृष्ण राजेन्द्र दायमा तिथि: 28.8.2020 कम्पनी सचिव

मंडल कार्यालय, नं. 6, 3रा तल, (KVB) Karur Vysya Bank निकट मेट्रो पिलर नं. 80, पूसा रोड, Smart way to bank करोलबाग. नई दिल्ली- 110005

फोन: 011-28758374/2875375/76/77 ई-मेलः delhido@kvbmail.com, bhaskaranps@kvbmail.com

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम,

2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सचित किया जाता है कि प्रतिभृत क्रेडीटर द करुर वैस्य बैंक लि. के पास गिरवी/ चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका करुर वैस्य बैंक, प्रतिभत क्रेडीटर के प्राधिकत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की, 1 मै. फॉर्च्यून रिटेल, पर प्रॉप. हिमांशु गिरधर, मदरकेयर स्टोर, बी-3, मॉडल टाउन-2, भू तल, नः दिल्ली- 110009, साथ हीं: मदर केयर, स्टोर, जी-41, अब्दल फजल एन्क्लेव-II, विश्वासजी सडक शाहीनबाग, नई दिल्ली-110025, 2) श्री हिमांशु गिरधर, पुत्र श्री गुरुचरण दास गिरधर, 17/10, 1ला तल. फ्रान्ट पोर्शन, कालकाजी, दिल्ली-110019 तथा 3) श्री रोहित अरोडा, पत्र श्री ओम प्रकाश, एच.नं. 3127, गली नं. 4, ओल्ड धरमपरा, गांधी नगर, दिल्ली-110031 से करुर वैस्य बैंक लि. प्रतिभृत क्रेडीटर के बकाये रु. 2,89,94,358.90 (रुपये दो करोड़ नवासी लाख चौरानवे हजार तीन सौ अन्ठावन तथा पैसे नब्बे मात्र) की वसुली के लिये 21.09.2020 को ''जैसा है जहाँ है'', ''जैस है जो है'' तथा ''जो कछ भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 90,00,000.00 (रुपये नब्बे लाख मात्र) तथा धरोहर राशि रु. 9.00.000.00

(रुपये नौ लाख मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

प्रथम तल पर आवासीय फ्लैट, नं. 17/10, खसरा नं. 1/53, खेवत नं. 68/143, कालकाजी, दिल्ली 110019 तथा चौहदीः उत्तरः प्लॉट नं. 17/9 दक्षिणः सर्विस लेन

पुर्वः अन्य फ्लैट पश्चिमः रोड

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया हमारे बैंक/ प्रतिभृत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात www.kvb.co.in/ Property Under Auction में दी गई लिंक तथा साथ ही सेवा प्रदाता, मै श्रीराम ऑटोमाल इंडिया लि. की वेब पोर्टल https://eauctions.samil.in देखें।

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठित 8 (6) के अंतर्गत 15 दिनों की एतदहारा ऋणधारक/ गारन्टरों को सचित किया जाता है कि ई-नीलामी की तिथि से पर्व अद्यतन ब्याज

तथा सहायक खर्चे के साथ उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री की जायेगी तथा शेष देयता, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों के साथ वसल की जायेगी। तिथि: 26.8.2020 मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

द करूर वैस्य बैंक लिमिटेड स्थानः दिल्ली

### रतनइंडिया पावर लिमिटेड

**RattanIndia** 

(CIN: L40102DL2007PLC169082)

पंजीकृत कार्यालय : ए-49, तल मंजिल, रोड नं. 4, महिपालपुर, नई दिल्ली - 110037 फोन : 011-46611666 फैक्स : 011-46611777

वेबसाईट: www.rattanindia.com, ई-मेल: ir@rattanindia.com

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि अन्य व्यवसायों के साथ-साथ जून 30, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिए, रतनइंडिया पावर लिमिटेड (कंपनी) के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और संयुक्त वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, सितंम्बर 4, 2020 को आयोजित की जाएगी ।

यह सचना कंपनी की वेबसाईट और स्टॉक एक्सचेंजो की वेबसाईट (www.bseindia.com और www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है ।

कृते रतनइंडिया पावर लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : अगस्त 28, 2020

कोरम के प्रयोजन हेतू की जाएगी।

ललित नारायण मठपती

कंपनी सचिव

वाम होल्डिंग्स लिमिटेड (CIN: U51909UP1996PLC057371) पंजीकृत कार्यालवः प्लॉट नं. १ए, सेक्टर-18 ए, नोएडा-201301 (उ.प्र.) ई-मेलः corporate.enpro@jepl.com; सम्पर्कः 0120-4361000

वाम होल्डिंग्स लिमिटेड की 23वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कॉपॉरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपन्न सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020 "एमसीए परिपत्र") के अनुसरण में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए वाम होल्डिंग्स लिमिटेड के सदस्यों की 23वीं वार्षिक आम बैठक (**"एजीएम") मंगलवार, 29** सितम्बर, 2020 को प्रातः 10.30 बजे (आईएसटी) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('बीसी')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ('बोएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरण के साथ उसके साथ संलग्न निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज (संयुक्त रूप से 'वार्षिक रिपोर्ट' के रूप में संदर्भित) उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी/ढिपॉजिटरी प्रतिमागियों (ढीपी) के पास पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने एवं भाग लेने के लिए निर्देश एजीएम की सूचना में दिये गये हैं।

से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यगणों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत

सदस्यगण जिन्होंने भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में शेयर धारण किये हैं और जिनका ई-मेल पता कंपनी/अपने संबंधित ढिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता, फोलियो नम्बर, कंपनी के श्रारित शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व–सत्वापित स्कैन की गई प्रति और कंपनी के साथ पंजीकृत अनुसार सदस्यों के पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित किसी एक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बोटर कार्ड, पासपोर्ट, वृटिलिटी बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज की स्व-सत्यापित प्रति के साथ सदस्य द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित पत्र को स्कैन करके यथाशीय ई-मेल corporate.enpro@jepl.com या rta@alankit.com पर भेजकर अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं। ढिमेट प्रारूप में शेवर घारण करने वाले सदस्वगण अपने किपॉजिटरी प्रतिमागी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत कराएं।

कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने के लिए अपने सभी सदस्यों हो रिमेाट ई−वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही, कंपनी एजीएम के दौरान {−वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने की भी सुविधा उपलब्ध करा रही है। रिमोट –वोटिंग∕ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है, जो सीडीएसएल www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

सदस्यों का वोटिंग अधिकार शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 ('कट-ऑफ तिथि') को कंपनी की प्रदत्त इविवटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा घारित इविवटी शेयरों के आनुपातिक होगा। ई-वोटिंग अवधि शनिवार 26 सितम्बर 2020 (प्रात: 9.00 बजे) प्रारंभ होगी और सोमवार 28 सितम्बर 2020 (सार्य 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान सदस्यगण अपने वोट इलेक्टॉनिक माध्यम से दे सकते हैं। उसके बाद सीढीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। सदस्यण जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे चुके हैं, वे मी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वह दोबारा अपना वोट देने के हकदार नहीं हों में। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी के शेयर अधिमहित करता है और एजीएम की सचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कद—ऑफ तिथि को शेयर घारण करता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध मेजकर अपना लॉगइन आईढी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो वह अपना बोट देने के लिए वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। इलेक्टॉनिक पद्धति के माध्यम वोटिंग से संबंधित किसी भी पछताछ के लिए कृपया www.evotingindia.com के हेल्प सैक्शन पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल आ अवलोकन करें या टोल फ्री नं. 1800-225-533 पर कॉल करें या helpdesk.evoling@cdsl.com पर अनुरोध मेजें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से जुडी किसी भी शिकायत के लिए कृपया श्री नितिन कुंडेर, 'ए' विंग, 25वां तल, मैराथन यूच्रैक्स, मफतलाल मिल कम्पांउइस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई-400013, ई-मेलः elpdesk.evoting@cdsl.com फोन: 022-23058738 से सम्पर्क करें।

निदेशक मंजल की आदेश से वाम होल्डिंग्स लिमिटेड

हस्ता/-ताकेश माधुर निदेशक DIN: 00009338

### AAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED CIN: L01122DL1984PLC018307

स्थान : नोएडा

दिनांकः 28 अगस्त, 2020

Registered Office: W-321, Ground Floor, Chirag Delhi, New Delhi - 110017 Website: www.aayushfoods.com; Email: aayushfoodherbs@gmail.com Tel No.: 011-41009092

NOTICE OF 36TH ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the Shareholders of the Company scheduled to be held on Wednesday 23rd September, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') facility, to transact the Business contained in the Notice of 36th AGM.

In view of the outbreak of Covid - 19 pandemic, social distancing measures are a perquisite and in terms of the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated 5 May 2020 read with Circular 14/2020 dated 8 April 2020 and Circular No. 17/2020 dated 13 April 2020 and Securities and Exchange Board of India Circular dated 12th May, 2020permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing(VC) pr Other Audio Video Means(OAVM), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and MCA Circulars, the AGM of the Company is being held through VC / OAVM. The deemed venue of the AGM shall be Registered Office of the Company.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated 12 May 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Depositories. Members may note that the Notice and Annual Report 2019-20 will also be available on the Company's website www.aayushfoods.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and Metropolitan Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.msei.in respectively.

In case you have not registered mail id with the Company/Depositories, please follow below instruction to register your mail ID for obtaining Annual Report for FY 2019-20 and login details for e-voting:

 In case the shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the Share Certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR(self attested scanned copy of Adhaar Card) by email to beetalrta@gmail.com or aayushfoodherbs@gmail.com.

In case shares are held in demat mode, please provide DP ID and Client ID, Name, Copy of Account Statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card) and AADHAR(self attested scanned copy of Adhaar Card) by email to beetalrta@gmail.com or aayushfoodherbs@gmail.com.

The Shareholders are requested to contact their Depository Participants for registration of Email ID as per the process provided by DP.

The procedure to join the meeting through VC/OAVM is provided in the notice of AGM. The members are further informed that:

a) The ordinary and special business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. The remote e-voting of the shareholders shall be reckoned on the equity

shares held by them as on 16th September 2020 being the cut-off date for

this purpose. Shareholders of the Company holding shares either in physical

or dematerialized form on the said cut-off date only shall be entitled to avail

The remote e-voting period commences on Sunday, 20th September, 2020 at 10.00 a.m. and ends on Tuesday, 22nd September, 2020 at 5.00 p.m. and shall not be available thereafter.

the facility of remote e-voting.

Place: Delhi

Date: 28.08.2020

d) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the Cut-off date i.e. 16th September, 2020 may obtain the User ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining the User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and CDSL's website. However if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote through remote e-voting.

Details of the manner of casting remote e-voting is available to the annexure of the notice for 36th AGM, which is also posted on the website of the Company viz., www.aayushfoods.com and on the website of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) the remote e-voting agency viz., www.evotingindia.com. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the

Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10

of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Reg 42 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Thursday, 17th September, 2020 to Wednesday, 23rd September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of annual closure of Books.

> Preeti Kataria Company Secretary & Compliance Officer

For Aayush Food and Herbs Limited

प्रपत्र संख्या INC-25A क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समझ, कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014

के नियम 41 के मामले में गोया एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN NO. U01300HR1989PLC030647 जिसका पंजीकृत कार्यालय गांव खानपुर, कोलिआ जी.टी.रोड, क्रुक्केंत्र—136118, हरियाणा स्थित है,

आम जनता को यह सचना दी जाती है कि यह कंपने केंद्र सरकार के समक्षें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत एक आवेदन करने का प्रस्ताव किय जो कि पूर्वोक्त नियमों के साथ पढ़ा गया है और विशेष संकल्प के तहत कंपनी को एक निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित् करने के लिए इच्छुक है। 24 अगरत 2020 को आयोजित असाधारण साधारण बैठक में कंपनी को इस तरह के रूपांतरण के लिए प्रभाव प्रदान करने में सक्षम बनाया गया। इंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह अपने हित की कृति और विरोध के आधार ब्ताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय पलोर, पंव दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर पर्यंक पते पर पंजीकृत डाक द्वारा मेज सकता है या सपर्दै कर सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी ही उनके पंजीकृत कार्यालय पर भी भेजेगा!

बोर्ड की आर्ज्ञानुसार हस्ता /-(रमेश चंद्र गोयल) प्रबंध संचालक ढीआईएनः 00187868 : 28 अगस्त 2020

: कुरुक्षेत्र सार्वजनिक सुचना

कॉरपोरेट मामले मन्त्रालय, उत्तरी क्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष

मैसर्स नवरंग मार्केटिंग लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकत कार्यालय 1397, बल्लीमारान दिल्ली, नई दिल्ली-110006 भारत पर है

एतहारा जनसामान्य को सचना दी जाती है वि कम्पनी 20 अगस्त, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ता के सन्दर्भ में निजी मर्यादित कम्पनी में परिवर्तित होने की इच्छुक है जिसके लिए वह उपर्युक्त नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत क्षेत्रीय निदेशक से आवेदन करने की इच्छुक है ताकि वह ऐसे परिवर्तन र सक्षम हो सके।

कम्पनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने वाला कोई भी सम्भावित व्यक्ति अपने हिल तथा विरोध की पृष्ठभूमि की प्रकृति बताते हुए एव शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्तियाँ या त एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) प निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर अथवा पंजीकत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीअं कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इर सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों वे भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते हैं या सुपुर कर सकते हैं और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय

1397, बल्लीमारान, दिल्ली, नई दिल्ली-110006

के पते पर भी भेजेगा :

आवेदक के लिए तथा उनकी ओर रं मैसर्स नवरंग मार्केटिंग लिमिटेड

नवैद नोशाः

डीआईएन : 00073081 तिथि : 20.08.2020 स्थान : दिल्ली

ितिथि: 27 अगस्त, 2020

कम्पनी या डिपॉजिटरी भागीदार/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं।

एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 प्राप्त करने हेत् ई-मेल पंजीकृत कराने की रीति

कृते अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

अब्दुल सामी

# ACE

## एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L74899HR1995PLC053860 पंजी. कार्यालय : दुधोला लिंक रोड, दुधोला, जिला पलवल-121102, हरियाणा फोन : +91-1275-280111 (50 लाइन्स), फैक्स : +91-1275-280133 ई-मेलः cs@ace-cranes.com, वेबसाइट : www.ace-cranes.com 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), रिमोट

रूप से अपना मतदा कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि:

है तो वे अपना मतदान करने हेतु वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

सम्पर्क कर सकते हैं। (अ) कथित तिथि एवं समय के पश्चात ई-वोटिंग की अनुमित नहीं दी जायेगी। इसके पश्चात

(ब) सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्य को बाद में इसे बदलने (स) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध करायी जायेगी और जिन

(य) निष्पक्ष तथा पारदर्शी ढंग से एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग की संवीक्षा वे

(स) बुक क्लोजर : पनः एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सचीबद्धत

# 21st Floor, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi Mumbai - 400 013

Investment Manager for ITI Mutual Fund

ITI Asset Management Limited

स्थान : जयप्र

दिनांक : 28.08.2020

Toll Free No: 1800 266 9603 B: 022 6621 4999 • F: 022 6621 4998 Registered Office: Naman Midtown, 'A' Wing : mfassist@itiorg.com W:www.itimf.com CIN: U67100MH2008PLC177677

ITI MUTUAL FUND Long-term wealth creators

# **NOTICE No. 17/2020**

Hosting of Annual Report of the Schemes of ITI Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2020

NOTICE is hereby given to the Unit Holders of the Scheme(s) of ITI Mutual Fund that, in accordance with the provisions of Regulation 56(1) of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/IMD/DF2/CIR/P/2018/92 dated June 05, 2018, the Annual Report of the Schemes of ITI Mutual Fund for the financial year ended March 31, 2020 has been hosted on the website of the Fund

www.itimf.com and on AMFI's website www.amfiindia.com respectively. Further, Unit holders may also request for a physical or electronic copy of the Annual Report by writing to us at the email address mfassist@itiorg.com or calling on the toll free number 1800-266-9603 (Monday to Saturday from 9.30 a.m to 6 p.m) or submitting a written request at any of the official points of acceptance

read all scheme related documents carefully.

of ITI Mutual Fund.

The Unit Holders are requested to take a note of the above. For ITI Asset Management Limited (Investment Manager for ITI Mutual Fund)

Place: Mumbai **George Heber Joseph** Date: August 28, 2020 **Chief Executive Officer & Chief Investment Officer** Mutual Fund investments are subject to market risks.



स्थान : पलवल

तिथि: 28.08.2020

# पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय:** एनबीसीसी प्लाजा, टावर II, 4था तल, पुष्प विहार, सेक्टर-5, नई दिल्ली-110017 CIN: L45201DL1999PLC195937, ईमेल: complianceofficer@pncinfratech.com, वेबसाईट: www.pncinfratech.com

(ईपीएस को छोड़कर रु. लाखों में									
1	क्रम	विवरण	स्टैण्डएलॉन			समेकित			
	सं.		समाप्त	समाप्त	समाप्त वर्ष	समाप्त	समाप्त	समाप्त	
			तिमाही	तिमाही	(31.3.2020)	तिमाही	तिमाही	छमाही	
			( 30.6.2020 )	( 30.6.2019 )		( 30.6.2020 )	(30.6.2019)	( 31.3.2020 )	
Ш			अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अंकेक्षित	
	1.	प्रचालनों से कुल आय	92437.87	133527.22	496641.43	112309.24	159933.39	577820.28	
		अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	8659.25	14467.76	61202.29	12588.77	23508.36	71278.05	
		कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	8659.25	14467.76	61202.29	12588.77	23508.36	71278.05	
		कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	6011.94	10014.90	46030.16	9174.63	17850.94	54988.48	
		अविध के लिये कुल व्यापक आय (अविध के लिये लाभ/(हानि) (कर से बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर से	6062.57	9991.21	46232.65	9239.07	17827.14	55246.23	
		बाद) से शामिल							
		इक्विटी शेयर पूंजी	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	
	7.	आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर )	-1	-)	249528.84	-	-	250295.20	
П	8.	आय प्रति शेयर (रु. 2/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)							
		1. मूल	2.34	3.90	17.94	3.58	6.96	21.43	

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का सार

## टिप्पणी:

**2.** तरल

1) उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com, www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.pncinfratech.com) पर उपलब्ध है।

2) उपरोक्त स्टैण्डएलॉन/समेकित परिणामों जिसकी ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 27 अगस्त, 2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए। पीएनसी इन्फ्राटेक लि. के लिए

> चक्रेश कुमार जैन प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ (DIN: 00086768)

स्थानः आगरा

www.readwhere.com

/email register.html के माध्यम से अपना ई-मेल पता अपडेट करा सकते हैं।

एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों द्वारा मतदान करना